



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 449] नई दिल्ली, बुधवार, अश्विन 31, 1979/कार्तिक 9, 1901  
No. 449] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 1979/KARTIKA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

घाबेल

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1979

का० घा० 621 (घ) :—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं० का० घा० 70 (घ)/18 कक/आई डी धार ए/78, तारीख 6 फरवरी, 1978 द्वारा, केरल स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड को कोट्टायम टेक्सटाइल लिमिटेड, कोट्टायम केरल, नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, आवेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18 क क की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उदात्त अनुसूची में ऐसे अनुवादों, निर्बंधनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहने हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति में लागू होता रहेगा जिसमें वह धारा 18 क क के अधीन पूर्वोक्त आवेश जारी किए जाने के पूर्व उसे लागू होता था ।

## अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, के अपवाद निर्बंधन और सीमाएं जिनके अधीन 1956 के उपबंध रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबंध उपक्रम को लागू होंगे

1	2
धारा 166 धारा 210(1)	इन धाराओं के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे कि औद्योगिक उपक्रम के तुलनपत्र तथा लाभ और हानि का लेखा वार्षिक साधारण अधिवेशन में रखा जाना आवश्यक नहीं होगा । औद्योगिक उपक्रम को प्राथिक रूप में तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा विहित अवधि के भीतर तैयार करना होगा किन्तु वार्षिक साधारण अधिवेशन में उसके रखे जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । कम्पनी, अपनी कानूनी विवरणियां और तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा कम्पनी के रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल करेगी । यह छूट कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 159 (1) के उपबंधों को प्रभावित नहीं करती है ।
धारा 215 धारा 217	इन धाराओं के उपबंध औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे ।

1	2
धारा 224	इस धारा के उपबंध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे किन्तु शर्त यह होगी कि संपरीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी।

[फा० सं० 3/17/77-सी० यू० सी०]

**MINISTRY OF INDUSTRY**  
(Department of Industrial Development)

**ORDERS**

New Delhi, the 31st October, 1979

**S. O. 621(E):**—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development, No. S.O. 70(E)/18AA/IDRA/78, dated the 6th February, 1978 issued under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government have authorised the Kerala State Textile Corporation Limited to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Kottayam Textiles Limited, Kottayam, Kerala for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E read with sub-section (5) of Section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the aforesaid industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the aforesaid order under section 18AA.

**SCHEDULE**

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
1	2
Section 166 Section 210(1)	Provisions of these sections shall not apply to the extent that the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the industrial undertaking need not be placed before the Annual General Meeting. The industrial undertaking will have to prepare the Balance Sheet and Profit and Loss Account as usual within the prescribed time, but is not required to place the same before the Annual General Meeting. The Company shall file its statutory returns and balance sheet and profit and loss account with the Registrar of Companies. The exemption does not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
Section 215 Section 217 Section 224	Provisions of these sections shall not apply to the industrial undertaking. Provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking, subject of the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.

[F.No. 3/17/77-CUC]

**फा० धा० 622 (घ):**—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं० फा० धा० 83(घ)/18 कक/आई डी धार ए/78, तारीख 9 फरवरी, 1978 द्वारा, केरल राज्य ट्क्सटाइल निगम लिमिटेड को प्रभूराम मिल्स लिमिटेड, चेंगनूर, केरल नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, आदेश विनिश्चित अवधि के लिए, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 कक की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाखण्ड अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बंधनों और सीमाओं को विनिश्चित करती है जिनके अधीन रहते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति में लागू होता रहेगा जिसमें वह धारा 18 कक के अधीन पूर्णतः आदेश जारी किए जाने के पूर्व उसे लागू होता था।

**अनुसूची**

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंध, वे अपवाद, निर्बंधन और सीमाएँ जिनके अधीन 1956 के उपबंध रहते हुए स्तंभ (1) में वर्णित उपबंध उपक्रम को लागू होंगे

1	2
धारा 166 धारा 210(1)	इन धाराओं के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे कि औद्योगिक उपक्रम के तुलनपत्र तथा लाभ और हानि का लेखा वार्षिक साधारण अधिवेशन में रखा जाना आवश्यक नहीं होगा। औद्योगिक उपक्रम को प्राथिक रूप में तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा विहित अवधि के भीतर तैयार करना होगा किन्तु वार्षिक साधारण अधिवेशन में उसके रखे जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। कम्पनी, अपनी कानूनी विवरणियाँ और तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा कम्पनी के रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल करेगी। यह छूट कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 159(1) के उपबंधों को प्रभावित नहीं करती है।
धारा 215 धारा 217	इन धाराओं के उपबंध औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे।
धारा 224	इस धारा के उपबंध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे किन्तु शर्त यह होगी कि संपरीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी।

[फा० सं० 3/18/77-सी० यू० सी०]

**S.O.622(E):**—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development No. S.O. 83(E)/18AA/IDRA/78, dated the 9th February, 1978 issued under Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government have authorised the Kerala State Textile Corporation Limited to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Prabhuram Mills Limited, Chengannur, Kerala for the period specified therein;

Now, therefore, the exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E read with sub-section (5) of section 18AA of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the aforesaid industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the aforesaid order under section 18AA.

## THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in Column (1) shall apply to the undertaking
1	2
Section 166 Section 210(1)	Provisions of these sections shall not apply to the extent that the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the industrial undertaking need not be placed before the Annual General Meeting. The industrial undertaking will have to prepare the Balance Sheet and Profit and Loss Account as usual within the prescribed time but is not required to place the same before the Annual General Meeting. The Company shall file its statutory returns and balance sheet and profit and loss account with the Registrar of Companies. The exemption does not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
Section 215 Section 217	Provisions of these sections shall not apply to the industrial undertaking.
Section 224	Provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking, subject to the conditions that the auditor shall be appointed by the Central Government.

1	2
Section 166 Section 210(1)	Provisions of these sections shall not apply to the extent that the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the industrial undertaking need not be placed before the Annual General Meeting. The industrial undertaking will have to prepare the Balance Sheet and Profit and Loss Account as usual within the prescribed time but is not required to place the same before the Annual General Meeting. The Company shall file its statutory returns and balance sheet and profit and loss account with the Registrar of Companies. The exemption does not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
Section 215 Section 217	Provisions of these sections shall not apply to the industrial undertaking.
Section 224	Provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking, subject to the conditions that the auditor shall be appointed by the Central Government.

[F.No. 3/18/77-CUC]

का० धा० 623(प्र) :—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18 कक के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं० का० धा० 84 (प्र)/18 कक/आई डी धार ए/78, तारीख 9 फरवरी, 1978 द्वारा, केरल राज्य टेक्सटाइल निगम लिमिटेड को मलबार् धातु एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड कालीकट केरल नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, आदेश विनिवृष्टि अवधि के लिए, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

धतः, प्रब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 क की उधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, इसमें उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे आवाओं, निर्बन्धनों और सीमाओं को विनिवृष्टि करती है जिनके अधीन रहते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति में लागू होता रहेगा जिसमें वह धारा 18 कक के अधीन पूर्वोक्त आदेश जारी किए जाने के पूर्व उसे लागू होता था ।

## अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंध	वे अपवाद, निर्बन्धन और सीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तंभ (1) में वर्णित उपबंध उपक्रम को लागू होंगे ।
1	2
धारा 166 धारा 210(1)	इन धाराओं के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे कि औद्योगिक उपक्रम के तुलनपत्र तथा लाभ और हानि का लेखा वार्षिक साधारण अधिवेशन में रखा जाना आवश्यक नहीं होगा । औद्योगिक उपक्रम को प्रायिक रूप में तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा विहित अवधि के भीतर तैयार करना होगा किन्तु वार्षिक साधारण अधिवेशन में उसके रखे जाने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी । कम्पनी, अपनी कानूनी विवरणियां और तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा कम्पनी के रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल करेगी । यह छूट कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 159(1) के उपबंधों को प्रभावित नहीं करती है ।
धारा 215 धारा 217	इन धाराओं के उपबंध औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे ।
धारा 224	इस धारा के उपबंध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे किन्तु यह होगा कि संपरीक्षक को नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी ।

1	2
धारा 166 धारा 210(1)	इन धाराओं के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे कि औद्योगिक उपक्रम के तुलनपत्र तथा लाभ और हानि का लेखा वार्षिक साधारण अधिवेशन में रखा जाना आवश्यक नहीं होगा । औद्योगिक उपक्रम को प्रायिक रूप में तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा विहित अवधि के भीतर तैयार करना होगा किन्तु वार्षिक साधारण अधिवेशन में उसके रखे जाने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी । कम्पनी, अपनी कानूनी विवरणियां और तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा कम्पनी के रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल करेगी । यह छूट कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 159(1) के उपबंधों को प्रभावित नहीं करती है ।
धारा 215 धारा 217	इन धाराओं के उपबंध औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे ।
धारा 224	इस धारा के उपबंध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे किन्तु यह होगा कि संपरीक्षक को नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी ।

[का० सं० 3/19/77-सी० यू० सी०]

ब० राय, संयुक्त सचिव

S.O. 623(E):—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development No. S.O. 84(E)/18AA/IDRA/78 dated the 9th February, 1978 issued under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government have authorised the Kerala State Textile Corporation Limited to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Malabar Spinning and Weaving Mills Limited, Calicut, Kerala for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the aforesaid industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the aforesaid order under section 18AA.

## THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
1	2
Section 166 Section 210(1)	Provisions of these sections shall not apply to the extent that the Balance

1	2
Section 166 Section 210(1)	Provisions of these sections shall not apply to the extent that the Balance

Sheet and Profit and Loss Account of the industrial undertaking need not be placed before the Annual General Meeting. The industrial undertaking will have to prepare the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts as usual within the prescribed time but is not required to place to same before the Annual General Meeting. The Company shall file its statutory returns and balance sheet and profit and loss account with the Registrar of Companies. The

Section 215

Section 217

Section 224

Exemptions does not affect the provisions of section 159 (1) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Provisions of these sections shall not apply to the industrial undertaking.

Provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking, subject of the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.

[F.No. 3/19/77-CUS]

B. ROY, Joint Secy.